



करेंट अफेयर्स

राजस्थान

मार्च

(संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)

# अनुक्रम

<b>राजस्थान</b>	<b>3</b>
➤ 'नायाब हुनर हाट' प्रदर्शनी का उद्घाटन	3
➤ राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह	3
➤ जैसलमेर एवं बीकानेर में विकसित होंगे 1800 मेगावाट क्षमता के दो नए सोलर पार्क	4
➤ 'परिडा बांधो अभियान'	4
➤ राजस्थान की मांड एवं भजन गायिका नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित	5
➤ प्रत्येक जिले में होगा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं का गठन	5
➤ आरएसएमएमएल एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' (खनन) से सम्मानित	6
➤ तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में सिद्धार्थ जोशी को मिला द्वितीय स्थान	6
➤ जयपुर में लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क और मोबाइल एप लॉन्च	7
➤ प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में खुलेंगे औद्योगिक क्षेत्र	7
➤ 'राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण' पुस्तक का विमोचन	8
➤ राजस्थान की पाँच शिखरियत पद्म पुरस्कार से सम्मानित	8
➤ आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में देश में चौथे पायदान पर पहुँचा राजस्थान	9
➤ राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022	9
➤ राज्य में खुलेंगे 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	10
➤ नई दिल्ली में राजस्थान उत्सव का हुआ उद्घाटन	10
➤ पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर पर मिलेगी बिजली	10
➤ ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी (महिला) चैंपियनशिप	11
➤ पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित	11
➤ तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार : राजस्थान दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य	12
➤ थार महोत्सव	13
➤ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने किया 'द इकोनॉमिक बुलेटिन' का विमोचन	13
➤ सरिस्का टाइगर रिजर्व	14

## राजस्थान

### 'नायाब हुनर हाट' प्रदर्शनी का उद्घाटन

#### चर्चा में क्यों ?

- 28 फरवरी, 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुन्तला रावत ने जयपुर में अर्बन हाट (जल महल के सामने) 'नायाब हुनर हाट' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी।

#### प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का आयोजन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान एवं राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
- 'नायाब हुनर हाट' प्रदर्शनी में लगभग 100 अधिक दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा भाग लिया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः लाख की चूड़ी, कुंदन मीनाकारी, पेंटिंग, आर्टीफिशियल ज्वैलरी, ब्लू पॉटरी, मार्बल एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडीक्राफ्ट, टेराकोटा, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आदि के दस्तकारों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों- बुनकर संघ, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, खादी बोर्ड एवं क्राफ्ट कौंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टॉजन्स आदि के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं।
- प्रदर्शनी आयोजन स्थल पर ब्लू पोटररी, करघों पर कपड़ा बुनाई, चाक से बर्तन बनाना, लाख चूड़ी आदि पर लाईव डेमो की भी व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- इस अवसर पर मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राजस्थान की दस्तकारी कला विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में कोई-न-कोई कला मौजूद है। इस तरह के आयोजनों से दस्तकारों को उत्पादों को बेचने के लिये मार्केट सपोर्ट मिलता है। राजस्थान में दस्तकारों, हैंडलूम एवं विभिन्न कलाओं के विकास की काफी संभावनाएँ हैं, राज्य सरकार हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट निदेशालय भी बनाने जा रही है। कलाओं और दस्तकारों के उत्थान के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं, यही कारण है कि राजस्थान से हैंडीक्राफ्ट का निर्यात भी बढ़ा है।

### राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह

#### चर्चा में क्यों ?

- 1 मार्च, 2022 को राजस्थान के संस्कृति युवा संस्था द्वारा होटल उनियारा में राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह-2022 का आयोजन किया गया।

#### प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान की उद्देश्यिका तथा मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया।
- राज्यपाल ने समारोह में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न कुमार खमेसरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजन विशाल, वैभव गालरिया, उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि एवं साहित्यकार डॉ. राजेश कुमार व्यास, शिक्षाविद् प्रो. ए.के. गहलोत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया।
- संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने कहा कि संस्था गत 27 वर्ष से साहित्य, संगीत, कला, व्यवसाय, प्रशासन, पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी राजस्थान और देश की प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित करने का कार्य कर रही है।
- संस्था के संरक्षक एच.सी. गणेशिया ने कहा कि आगामी 13 मार्च को संस्था द्वारा जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

## जैसलमेर एवं बीकानेर में विकसित होंगे 1800 मेगावाट क्षमता के दो नए सोलर पार्क

### चर्चा में क्यों ?

- 1 मार्च, 2022 को राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के जैसलमेर एवं बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के दो नए सोलर पार्क विकसित किये जाएंगे।

### प्रमुख बिंदु

- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से और बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट के माध्यम से विकसित किये जाएंगे।
- दोनों पार्कों को केंद्र सरकार की योजना के मोड 8 के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिये केंद्र सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में लगातार ऊँची छलांग लगा रहा है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान भी प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू एल्यूआई पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी राजस्थान के जोधपुर जिले के भडला में विकसित किये जाने का श्रेय भी राजस्थान को ही है। इसी तरह से अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर जिले के नोख में विकसित किया जा रहा है।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस तरह 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन चुका है।
- नए पार्कों की स्थापना के साथ ही राज्य में अक्षय ऊर्जा आधारित आधारभूत ढाँचा विकसित होने के साथ ही निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में सस्ती और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ सकेगा।

## 'परिडा बांधो अभियान'

### चर्चा में क्यों ?

- 3 मार्च, 2022 को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने पक्षियों के जीवन संरक्षण हेतु परिडा एवं चुग्गा पात्र बांधने के अभियान 'परिडा बांधो अभियान'की शुरुआत की।

### प्रमुख बिंदु

- सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभागीय कार्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, होम्स और अन्य संस्थानों में पक्षियों के लिये परिडे बांधने एवं चुग्गा पात्र की व्यवस्था का अभियान चलाया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि विश्व वन्यजीव दिवस पर इस अभियान की शुरुआत का विशेष महत्त्व है। यह दिवस हमें हमारी पर्यावरणीय चिंता और दायित्वबोध के प्रति सजग करता है।
- अभियान को राज्य स्तर पर विभागीय कार्यालयों में संचालित करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है कि गर्मियों में पक्षियों के परिडों में प्रतिदिन पानी एवं चुग्गा पात्रों में दाने की व्यवस्था आपसी सहयोग से की जाए।

## राजस्थान की मांड एवं भजन गायिका नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

- 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका बतुल बेगम भी शामिल हैं।

### प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 और 2021 के लिये 28 पुरस्कार प्रदान किये। हर साल के लिये 14-14 पुरस्कार दिये गए तथा एक पुरस्कार संयुक्त रूप से दो महिलाओं को प्रदान किया गया।
- ये पुरस्कार उद्यमशीलता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, वन्यजीव संरक्षण, भाषा विज्ञान, मर्चेट नेवी, शिक्षा, साहित्य, स्टेम (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) और दिव्यांगजन अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिये गए।
- भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिये राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका बतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि कमजोर और हाशिये पर रहने वाली महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को हर वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हो पाया था।
- वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली राजस्थान की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौशल्या एएनएम सांगानेर, जयपुर और सुनीता महिया एएनएम सीएचसी मकराना, नागौर को प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौशल्या ने 76 हजार से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करवाया, वहीं एएनएम सुनीता महिया ने 74 हजार से ज़्यादा लोगों का कोविड वैक्सीनेशन करवाया जो कि देश में रिकॉर्ड उपलब्धि है।

## प्रत्येक ज़िले में होगा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं का गठन

### चर्चा में क्यों ?

- 9 मार्च, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि मिलावटी पदार्थों की जाँच हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन कर दिया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चुरू और जालौर जिले को छोड़कर सभी जिलों में प्रयोगशाला गठित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत चुरू और जालौर में लैब के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। स्वीकृति मिलने पर ही इन दोनों जिलों में लैब का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
- चिकित्सा मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 29(1) के प्रावधानानुसार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यस्तरीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन शासकीय आदेश दिनांक 22 जून, 2020 के द्वारा किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिये मुख्यमंत्री ने इस बजट घोषणा में प्रत्येक जिले में भी खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है।
- मिलावटी पदार्थों की जाँच हेतु राज्य के 11 जिलों- जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाँसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, चुरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालाएँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में संभागीय स्तर पर 9 चल खाद्य प्रयोगशालाएँ भी संचालित हैं।
- बजट घोषणा की पालना में सीकर, बारों, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु बजट में प्रावधान किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

## आरएसएमएमएल एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' ( खनन ) से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

- 8 मार्च, 2022 को राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ( आरएसएमएमएल ) एवं इसकी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार'(खनन) से सम्मानित किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता खदानों के प्रतिनिधियों को प्रदान किये गए।
- राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक तुलसी राम अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार पिछले चार वर्षों के दौरान खदानों द्वारा उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन को देखते हुए दिये गए हैं।
- आरएसएमएमएल को वर्ष 2019 व 2020 एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2017 एवं 2018 के लिये 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' से नवाजा गया है।
- समारोह में आरएसएमएमएल की ओर से समूह के महाप्रबंधक (लाइमस्टोन) पीआर प्रजापत, समूह के महाप्रबंधक (परियोजना) ओम पटेल तथा ब्लास्टर्स आशीष गिलबर्ट ने वर्ष 2019 एवं 2020 के लिये यह पुरस्कार प्राप्त किये।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा खदानों के सुरक्षा मापदंडों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार कोयला, धातु और तेल के खदानों को प्रतिवर्ष दो श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों के अंतर्गत कड़े सुरक्षा मापदंडों, जैसे- लगातार तीन वर्षों तक शून्य दुर्घटना दर, खदान में कार्य करने वाले कामगारों की पूर्ण सुरक्षा व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसे आँकड़ों को दृष्टिगत रखा जाता है।

## तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में सिद्धार्थ जोशी को मिला द्वितीय स्थान

### चर्चा में क्यों ?

- 11 मार्च, 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। इसमें राजस्थान के डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

### प्रमुख बिंदु

- प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिये एक अभिनव कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव- 2022 प्रतियोगिता में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान के डूंगरपुर के वागड़ गाँव के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय और बटिंडा की अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- इस महोत्सव का आयोजन उन युवाओं के विचार जानने के लिये किया जाता है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे।
- एनवाईपीएफ का पहला संस्करण 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक तथा दूसरा संस्करण 23 दिसंबर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया गया था।
- एनवाईपीएफ का तीसरा संस्करण 14 फरवरी, 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया था। 23 से 27 फरवरी, 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों के बाद राज्य युवा संसदों में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
- शीर्ष तीन राष्ट्रीय विजेताओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार (क्रमशः 2,00,000 रुपए, 150,000 रुपए तथा 100,000 रुपए) प्रदान किया गया तथा 2 प्रतिभागियों को 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

## जयपुर में लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क और मोबाइल ऐप लॉन्च

### चर्चा में क्यों ?

- 14 मार्च, 2022 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने मंडल कार्यालय से जयपुर शहर में लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क और इसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया।

### प्रमुख बिंदु

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर शहर में 40 अलग-अलग स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किये गए हैं।
- इन सेंसर से न केवल शहर में प्रदूषण के हॉट स्पॉट के बारे में पता चलेगा, बल्कि उस स्थान विशेष पर प्रदूषण के कारणों की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
- इन सेंसर के माध्यम से शहर की हवा की गुणवत्ता के बारे में बृहद् जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर अन्वेषण कर वायु प्रदूषण कम करने के लिये बेहतर योजनाएँ बनाई जा सकेंगी।
- इन सेंसर से प्राप्त डाटा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आमजन को भी उपलब्ध होगा। इस डाटा को नियमित रूप से संबंधित विभागों को भी भेजा जाएगा, ताकि सभी के समन्वय से शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिये उपयुक्त निर्णय लिये जा सकें और दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
- जयपुर में 5 जगहों- यादगार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय वीकेआई, सचिवालय, सांगानेर एयरपोर्ट तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय परिसर झालाना में सेंसर के साथ डिस्प्ले बोर्ड भी स्थापित किये जाएंगे। इन बोर्ड्स पर धूल कण, सूक्ष्म धूल कण एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक आमजन के लिये प्रदर्शित किया जाएगा।
- ये सेंसर कम लागत के होने के साथ-साथ आकार में छोटे तथा इन्स्टॉलेशन में आसान हैं। इनकी मॉनिटरिंग भी आसान होती है, जबकि मैनुअल स्टेशन आकार में बड़े होने के अलावा लागत में अधिक होते हैं तथा उनके संचालन एवं रखरखाव में भी अधिक सावधानी रखनी पड़ती है।
- उल्लेखनीय है कि आईआईटी कानपुर द्वारा एरिक्सन इंडिया के वित्तीय सहयोग से लार्ज स्केल मल्टी सिटी डेन्स अरबन आईओटी रीयल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत जयपुर के अतिरिक्त कन्याकुमारी, चेन्नई तथा गुवाहाटी में लो कॉस्ट सेंसर लगाए गए हैं।

## प्रदेश के प्रत्येक उपखंड में खुलेंगे औद्योगिक क्षेत्र

### चर्चा में क्यों ?

- 14 मार्च, 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विधानसभा में बताया कि देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए प्रत्येक उपखंड पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- शकुंतला रावत ने कहा कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित 153 उपखंडों में से 129 उपखंडों में भूमि चिह्नित कर ली गई है और 45 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये 2100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
- उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा पूरे कार्यकाल में 2138 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा 3 वर्ष में लगभग 4000 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है।
- जन घोषणा-पत्र की अनुपालना में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 जारी की गई है। इसमें समावेशी और सतत् औद्योगिक विकास, औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन आदि का समावेश किया गया है।
- वहीं, रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास में सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। अभी तक 370 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गए हैं। इनमें 41600 इकाईयाँ उत्पादनरत् हैं।

## 'राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण' पुस्तक का विमोचन

### चर्चा में क्यों ?

- 16 मार्च, 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत कृषि भवन में 'राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण' पुस्तक का विमोचन किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में राजस्थान में वर्ष 2019 एवं 2020 में फसलों पर टिड्डी हमले के दौरान नियंत्रण के लिये कृषि विभाग की ओर से उठाए गए कदमों एवं नवाचारों की जानकारी दी गई है।
- इसके साथ ही पुस्तक में टिड्डी से संबंधित विस्तृत तकनीकी जानकारी एवं नियंत्रण के लिये किये जाने वाले उपायों को बताया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, दौसा तथा भरतपुर और उत्तर प्रदेश के झाँसी एवं महोबा जिलों में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डीयों तथा वयस्क पीली टिड्डीयों के झुंड सक्रिय रहते हैं।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान से 11 अप्रैल, 2020 को हुई थी।
- जुलाई, 2020 में राजस्थान के 6 जिलों - जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और दौसा के 25 स्थानों तथा उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में दो स्थानों पर लोकल सर्किल कार्यालयों (एलसीओ) द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया था।
- इसके अलावा, टिड्डीयों के छोटे-छोटे समूहों को खत्म करने के लिये उत्तर प्रदेश के झाँसी और महोबा जिलों में 4 स्थानों पर तथा राजस्थान के भरतपुर में 2 स्थानों पर राज्य कृषि विभागों द्वारा नियंत्रण अभियान चलाया गया।
- भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन (एलडब्ल्यूओ) और दस टिड्डी वृत्त कार्यालय (एलसीओ) राजस्थान (जैसलमेर, बीकानेर, फलीदी, बाड़मेर, जालौर, चूरू, नागौर, सूरतगढ़) और गुजरात (पालनपुर एवं भुज) में स्थित हैं, जो मुख्यरूप से राजस्थान और गुजरात के 2 लाख वर्ग किमी. अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में टिड्डी सर्वेक्षण एवं नियंत्रण करते हैं।

## राजस्थान की पाँच शिखर पद्म पुरस्कार से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

- 21 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा- एथलीट जैवलिन श्रोअर देवेन्द्र झाझरिया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्मभूषण से तथा पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लखेरा, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी तथा संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती राम दयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया।

### प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2022 के लिये देश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, गीता प्रेस के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम खेमका व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद समेत 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किये।
- नागरिक अलंकरण समारोह-II का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा, जिसमें शेष हस्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- पैरालंपिक खेलों में तीन मेडल जीतने वाले राजस्थान के जैवलिन श्रोअर देवेन्द्र झाझरिया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स- 2020 में देवेन्द्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा 1978 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि को एक उत्कृष्ट सिविल सेवक के तौर पर उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिये पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
- अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स- 2020 में वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में देश के लिये पहला गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। टोक्यो पैरालंपिक में ही लखेरा ने दूसरे मेडल के तौर पर ब्रॉज मेडल भी जीता और दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।

- राजस्थान के सिरोही जिले के दोदुआ में जन्मे फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रीनप्ले राइटर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने टेलीविजन धारावाहिक 'चाणक्य'के निर्देशन के साथ-साथ बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों, जैसे- पिंजर, मोहल्ला अस्सी, जेड प्लस, पृथ्वीराज, उपनिषद् गंगा एवं टेलीविजन सीरीज 'मृत्युंजय'के निर्देशन सहित कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।
- राजस्थान में 'ब्रज कौकिला'और 'ब्रज पपीहा'के नाम से विख्यात भरतपुर के नामचीन नौटंकी कलाकार राम दयाल शर्मा रहशधारी घराना (सामई खेड़ा) से ताल्लुक रखते हैं। शर्मा को इससे पहले संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। रामदयाल शर्मा नौटंकी, स्वांग, भगत, रासलीला और रसिया से जुड़े कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

## आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में देश में चौथे पायदान पर पहुँचा राजस्थान

### चर्चा में क्यों ?

- 22 मार्च, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों के मध्य चौथा स्थान अर्जित कर लिया है।

### प्रमुख बिंदु

- देश भर में मनाई जा रही भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किये जाते हैं।
- राजस्थान में 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षगाँठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को भारत सरकार के इस हेतु बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किया जाता रहा है।
- आज से लगभग 15 दिवस पूर्व राजस्थान देश में 20वें नंबर पर था। 22 मार्च तक 431 कार्यक्रमों को अपलोड कर राजस्थान भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य चौथे स्थान पर पहुँच गया है।
- आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग नोडल विभाग है तथा संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न विभागों एवं जिलों के समन्वय तथा सहयोग से राजस्थान में उक्त आयोजन को ऐतिहासिक बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

## राजस्थान नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, 2022

### चर्चा में क्यों ?

- 23 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

### प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने इस विधेयक को चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के बारे में बताया गया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिये अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा की सीधी भर्ती के पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्यस्तरीय आयोग द्वारा किया जाता है।

## राज्य में खुलेंगे 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

### चर्चा में क्यों ?

- 24 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण 2022-23 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा 179 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने हेतु स्वीकृति जारी की गई।

### प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि विभाग द्वारा लिये गए इस निर्णय से पूरे प्रदेश के विद्यार्थी तथा विशेषकर वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क पा सकेंगे।
- डॉ. कल्ला ने बताया कि सभी स्वीकृत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
- शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से निजी विद्यालयों की भारी फीस वहन करने में अक्षम अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सुलभ करवा सकेंगे।

## नई दिल्ली में राजस्थान उत्सव का हुआ उद्घाटन

### चर्चा में क्यों ?

- 24 मार्च, 2022 को राजस्थान स्थापना दिवस (30 मार्च) के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान उत्सव का नई दिल्ली के बीकानेर हाउस परिसर में विधिवत् शुभारंभ हुआ। यह उत्सव 31 मार्च, 2022 तक चलेगा।

### प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में राजस्थान सरकार की प्रमुख आवासीय आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति की एक्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य ममता सिंघानिया ने दीप प्रज्वलन एवं रिबन काटकर राजस्थान उत्सव का उद्घाटन किया।
- इसके साथ ही राजस्थान पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और रुडा द्वारा राजस्थान उत्सव के दौरान आयोजित हस्तशिल्प मेला, राजस्थानी सांस्कृतिक कलाओं से जुड़े संपूर्ण कार्यक्रमों का कैलेंडर भी जारी किया गया।
- इस उत्सव में राजस्थानी कला, संस्कृति और राजस्थानी हस्तशिल्प का सामान एक ही परिसर में उपलब्ध होगा।
- इस मेले में रूरल नॉनफार्म डेवलपमेंट एजेंसी (रुडा) द्वारा राजस्थानी आर्टिजंस के 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रतिनिधि आर्टिजंस का कला और हस्तशिल्प का सामान बिक्री के लिये उपलब्ध होगा।
- सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में 27 मार्च को हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया और राजस्थान फाउंडेशन के संयोजन से विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तत्कालीन बीकानेर महाराज की कार सबसे आगे चलेगी, जिसे बाद में उत्सव के दौरान बीकानेर हाउस परिसर में दर्शकों और आगंतुकों के लिये देखने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस उत्सव में राजस्थान के चुनिंदा दस्तकारों द्वारा निर्मित हैंडीक्राफ्ट उत्पादों, जैसे- ब्लू पॉटरी, राजस्थानी ऊनी शॉल, राजस्थानी ज्वेलरी, मार्बल, ब्रास मेटल वर्क, क्ले फेस, राजस्थानी जूतियाँ, बाड़मेरी एंब्रायडरी, सांगानेरी प्रिंट, राजस्थानी साड़ियाँ-सूट, टेराकोटा, गोटा पत्ती, तारकशी का कार्य, राजस्थानी पेंटिंग, कोटा डोरिया, अजरक प्रिंट, पोकरण पोर्टी, कावड़ कास्ट कला, राजस्थानी बैंगल्स सहित विभिन्न प्रकार के राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे।

## पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर पर मिलेगी बिजली

### चर्चा में क्यों ?

- 25 मार्च, 2022 को राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को वाणिज्यिक श्रेणी के स्थान पर औद्योगिक दर पर बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस वर्ष बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में ये आदेश जारी किये गए हैं।
- इससे प्रदेश में इस सेक्टर से जुड़े लाखों उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा राज्य में पर्यटन गतिविधियों का और विस्तार संभव हो सकेगा।
- गौरतलब है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की वर्ष 1989 से लेकर अब तक कई बार घोषणा हुई, लेकिन इसका समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका था।
- पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। साथ ही, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के बड़े अवसर सृजित हो सकते हैं।

### ऑल इंडिया इंटर ज़ोनल हॉकी ( महिला ) चैंपियनशिप

#### चर्चा में क्यों ?

- 21 से 27 मार्च, 2022 तक राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की मेज़बानी में एस्ट्रोर्टफ कोर्ट पर ऑल इंडिया इंटर ज़ोनल हॉकी ( महिला ) चैंपियनशिप का आयोजन किया गया।

#### प्रमुख बिंदु

- इस चैंपियनशिप का आयोजन चित्रकूटनगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गाँव स्थित हॉकी एस्ट्रोर्टफ में किया गया।
- इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश के जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने आईटीएम विश्वविद्यालय, ग्वालियर को हराकर खिताब पर कब्ज़ा जमाया।
- राजस्थान के राज्यपाल एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विजेता टीम को ट्रॉफी एवं स्वर्ण पदक तथा उपविजेता टीम को रजत पदक प्रदान किया।
- तीसरे और चतुर्थ स्थान पर क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला और सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे की टीम रहीं। पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला की टीम को कांस्य पदक प्रदान किया गया।
- राज्यपाल ने विजेता टीम को अपनी तरफ से एक लाख रुपए तथा उपविजेता को 75 हजार रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया।

### पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित

#### चर्चा में क्यों ?

- 28 मार्च, 2022 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया। यह सत्र 9 फरवरी, 2022 से प्रारंभ हुआ था।

#### प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने विधानसभा के सप्तम सत्र में सदन में किये गए महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया।
- इस सत्र में कुल 25 बैठकें हुईं। इस सत्र की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 171 घंटे 19 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली।
- सदस्यों से कुल 8336 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3785 एवं अतारांकित प्रश्न 4547 हैं। कुल 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 333 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गए। इसी तरह 498 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत कुल 351 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 55 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत 288 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 229 विशेष उल्लेख की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गई/पढ़ी हुई मानी गई तथा विशेष उल्लेख की 59 सूचनाएँ सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण लैप्स हुईं।

- प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 1076 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गए। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिये 1061 प्रस्ताव प्रेषित किये गए।
- सत्र के अंतिम दिवस में सर्वाधिक 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध किये गए। लोक महत्त्व के 3 विषयों पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गए।
- प्रक्रिया के नियम-119 के अंतर्गत 3 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। प्रक्रिया के नियम-127 के अंतर्गत 8 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं।
- राज्यपाल की ओर से 9 फरवरी, 2022 को सदन में अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिसमें 21 सदस्यों ने भाग लिया। 15 फरवरी, 2022 को अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।
- विभागों से संबंधित 12 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हुई। अनुदान की मांगों पर 2960 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 2644 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गए एवं 316 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।
- वर्तमान सत्र में कुल 15 विधेयक पुररूस्थापित कर 14 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 1 विधेयक राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया। विधेयकों पर सदस्यों से कुल 279 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 262 संशोधन स्वीकार किये गए।
- वर्तमान सत्र में कुल 17 गैर-सरकारी संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 16 ग्राह्य किए गये, शलाका द्वारा 5 गैर-सरकारी संकल्प सूचीबद्ध किये गए तथा 1 अग्राह्य किया गया।
- समस्त सूचीबद्ध 5 गैर-सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत किये गए। उक्त संकल्प में से सदस्य अशोक लाहोटी, राजेंद्र राठौड़ एवं बिहारीलाल द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 25 मार्च को सदन में चर्चा हुई, जिसमें 12 सदस्यों ने भाग लिया।
- सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति द्वारा वर्तमान सत्र में वर्ष 2021 के लिये सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बाबूलाल (झाडोल) एवं मंजू देवी का सर्वसम्मति से चयन किया गया।

## तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार : राजस्थान दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य

### चर्चा में क्यों ?

- 29 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया।

### प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के साथ ही जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैम्पेन 2022 का शुभारंभ किया।
- इस अवसर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम 'इंडिया वाटर वीक-2022' (आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2022) के 7वें संस्करण की प्रथम सूचना विवरणिका जारी की गई। इसका आयोजन 1-5 नवंबर, 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।
- जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग-अलग श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिये गए।
- इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक), सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ संस्थान/आरडब्ल्यूए/कैंपस उपयोग के लिये धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सीएसआर गतिविधि के लिये सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं।
- इनमें से कुछ श्रेणियों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उप-श्रेणियाँ भी हैं। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति- पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया गया।
- 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला।

- उल्लेखनीय है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। जल आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिये 2019 में जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, जिसमें कई पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई गईं और इसमें करोड़ों लोग शामिल हुए।
- जल शक्ति अभियान-II : 'कैच द रेन, ह्वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स'को प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जिसे प्री-मानसून और मानसून अवधि, यानी मार्च 2021 से 30 नवंबर, 2021 के दौरान देश के सभी जिलों (ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों) में चलाया गया था।
- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2022 में कुछ नई विशेषताएँ जोड़ी गई हैं, जैसे- स्प्रिंग शेड विकास, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा, जल क्षेत्र में लैंगिक मुख्यधारा। जल क्षेत्र में लैंगिक मुख्यधारा शामिल किये जाने से जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## थार महोत्सव

### चर्चा में क्यों ?

- 28 से 30 मार्च, 2022 तक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'थार महोत्सव' का आयोजन किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की कला और लोक संस्कृति का परिचायक 'थार महोत्सव'का आयोजन 10 साल के बाद पुनः शुरू किया गया।
- बाड़मेर में इससे पहले वर्ष 2012 में थार महोत्सव का आयोजन किया गया था। वर्ष 1986 से 2012 तक लगातार इसका आयोजन किया गया था।
- पश्चिमी राजस्थान की लोक कला, संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, लोक जीवन, थार की जीवन-शैली, इतिहास से दुनिया को रू-ब-रू कराने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में जिला प्रशासन ने थार महोत्सव की शुरुआत की थी।
- बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा पशु मेला, महाबार के मखमली धोरे, नाकोड़ा का धार्मिक पर्यटन, मुनाबाव का बॉर्डर, किराडू के मंदिर, बीसू के मंदिर, पचपरदा के नमक के पिरामिड, सिवाना का किला, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, गेर नृत्य और यहाँ की पशु समृद्धि के साथ ही मरु उद्यान भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

## राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने किया 'द इकोनॉमिक बुलेटिन'का विमोचन

### चर्चा में क्यों ?

- 29 मार्च, 2022 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 'द इकोनॉमिक बुलेटिन'का विमोचन किया।

### प्रमुख बिंदु

- बुलेटिन का प्रथम संस्करण 'स्टेट फाइनेंस ऑफ राजस्थान'राज्य की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति, व्यय बजट आवंटन, ऋण एवं घाटे की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- इसमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर Covid-19 के प्रभाव तथा राज्य को मिलने वाले GST Compensation पर प्रकाश डाला गया है।
- 'द इकोनॉमिक बुलेटिन'पत्रिका शोधार्थियों, शिक्षाविदों एवं नीति-निर्माताओं के लिये उपयोगी साबित होगी।

## सरिस्का टाइगर रिज़र्व

### चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिज़र्व के जंगलों में लगी आग से लगभग 10 वर्ग किमी. का वन क्षेत्र गंभीर रूप से नष्ट हो गया है।

### प्रमुख बिंदु

- सरिस्का के जंगलों 27 मार्च को आग लगी थी जिसे बुझाया जा चुका था। 28 मार्च को पुनः आग भड़क गई और लगभग 10 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैल गई।
- यद्यपि आग के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, किंतु यह चिंता का विषय है कि 'फायर अलर्ट'के बावजूद आग के गंभीर रूप लेने से लगभग 10 वर्ग किमी. का वन क्षेत्र नष्ट हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा आग के संबंध में अलर्ट भेजा गया था, जिसका श्रेय नासा-इसरो- FSI के उपग्रह आँकड़ों पर सहयोग को जाता है।
- सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है, जहाँ बाघ, भारतीय तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि वन्यजीव पए जाते हैं।
- यह उत्तरी अरावली तेंदुआ एवं वन्यजीव गलियारे से संबंधित महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है।

**दृष्टि**  
The Vision